

**थाना मिर्जापुर को मिली बड़ी सफलता, 06 शातिर चोर गिरफ्तार,**

**अवैध असलहा सहित 03 चोरी की मोटरसाइकिल, आभूषण व 22 हजार रूपये की नगदी बरामद ।**

जनपद में लगातार हो रही चोरी व नकबजनी के अपराधों पर लगाम लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर डा0 एस0 चिनप्पा के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस टीम गठित कर एक कार्य योजना बनाई गयी । जिसका पर्यवेक्षण श्रीमति अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं निर्देशन श्री ब्रह्मपाल सिंह द्वारा सम्भाला गया तथा प्रत्येक दिवस के कार्य की समीक्षा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा स्वयं की जाने लगी ।

इस क्रम में दिनांक 26.09.2019 को थाना मिर्जापुर व खुदागंज पुलिस की संयुक्त टीम अपराधी व रात्रि में हो रही नकबजी के अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी में मामूर थे । तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि नूरपुर तरसौरा से ग्राम जगपुरा जाने वाली सडक पर दिलीप गुप्ता व पंकज गुप्ता के भट्टे से करीब 150 मीटर दूर दाहिनी तरफ सडक के किनारे खाली खेत में तीन चोरी की मोटर साइकिल व अवैध असलहों के साथ एकत्रित है व ग्राम भौती की चोरी में चोरी के सामान का आपस में बटवारा कर रहे हैं एव पुनः किसी घटना करने की फिराक में हैं । सूचना पर विश्वास करके मुखबिर द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुंचकर एक दबिश दी गयी तथा घेराबन्दी कर 06 व्यक्तियों 1. नेत्रपाल 2. शरदवीर सिंह 3. जितेन्द्र उर्फ गर्गा 4. देवेन्द्र उर्फ हग्गू 5. कश्मीर उर्फ कल्लू 6. विवेक सुनार को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से अवैध असलहा व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी । तथा अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम भौती में सूरजपाल पुत्र हरद्वारी व महादेव के घर से चोरी किया गया माल/जेबरात अभियुक्त विवेक सुनार निवासी कस्बा व थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर के यहां बेचा गया था जो बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तों को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण: -**

1. नेत्रपाल उर्फ डब्लू S/0 जदुनाथ नि0 नया गांव थाना कलान शाहजहांपुर
2. शरदवीर सिंह S/0 हरपाल सिंह नि0कीलापुर थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर
3. जितेन्द्र उर्फ गर्गा S/0 राम सिंह नि0 वसई थाना कलान, शाहजहांपुर
4. देवेन्द्र उर्फ हग्गू S/0 राजेश्वर नि0 कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूं
5. कश्मीर उर्फ कल्लू S/0 भैयालाल नि0 थरिया थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर
6. विवेक सुनार पुत्र सुभाषचन्द वर्मा निवासी कस्बा व थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर

**बरामदगी का विवरण: -**

1. एक देशी रायफल 315 बोर
2. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
3. चार जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. दो अदद चाकू नाजायज
5. चोरी की तीन अदद मोटरसाइकिल
6. आभूषण (दो अदद पायल , एक कमर बिछुआ, दो झाले कान के व नाक की नथ , एक पीली धातु की जंजीर व 22 हजार रूपये नगद )

## **पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तो से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 13/09/19 को ग्राम भौती में सूरजपाल व महादेव थाना मिर्जापुर के घर से चोरी तथा दिनांक 26/27/6/19 ग्राम नत्थीनगला थाना कलान सम्बन्धित मु0अ0स0 269/19 धारा 457/380 IPC चोरी की घटना कारित करना स्वीकार की गयी। जिस सम्बन्ध में थाना कलान पंजीकृत है का भी अनावरण हुआ है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गया 1. नेत्रपाल उर्फ डब्लू S/0 जदुनाथ नि0 नया गांव थाना कलान शाहजहांपुर 2. शरदवीर सिंह S/0 हरपाल सिंह नि0कीलापुर थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर 3. जितेन्द्र उर्फ गर्ग S/0 राम सिंह नि0 वसई थाना कलान, शाहजहांपुर 4. देवेन्द्र उर्फ हगू S/0 राजेश्वर नि0 कस्बा व थाना अलापुर जनपद बदायूं पूर्व में भी थाना मिर्जापुर, जलालाबाद, कलान से लूट, चोरी के मुकदमों में जेल जा चुके हैं।

## **पुलिस टीम का विवरण: -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर पाण्डेय
2. थानाध्यक्ष खुदागंज श्री वकार अहमद
3. व0उ0नि0 श्री रामायण सिंह
4. उ0नि0 अपसार मियां
5. उ0नि0 हरेन्द्र प्रताप सिंह
6. का0 1155 अविनाश
7. का0 1037 विनोद यादव
8. का0 1748 कृष्णकान्त शर्मा
9. का0 1751 अरविन्द तोमर
10. का0 1265 रितुराज सिंह थाना खुदागंज
11. का0 192 गौरव कुमार थाना खुदागंज
12. का0 अजय कुमार सर्विलांस शाहजहांपुर
13. का0 संजीव कुमार सर्विलांस शाहजहांपुर